



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन 1930 (श0)  
(सं0 पटना 54) पटना, बुधवार, 4 मार्च 2009

पत्रांक-बी0 / मृ0-1009 / 08.-1867

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
(सामान्य शाखा)

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,  
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 27 नवम्बर, 2008

विषय:-पूर्व प्रधानमंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निधन पर राजकीय शोक मनाये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे दुख के साथ सूचित करना है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का दिनांक 27.11.2008 को देहावसान हो गया है। राज्य सरकार ने दिनांक 27.11.08 से 29.11.08 तक तीन दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है। राजकीय शोक की अवधि में जिन सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराये जाते हैं, उन पर राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जायेगा। राष्ट्रीय शोक की अवधि में कोई राजकीय समारोह आयोजित नहीं होगा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सम्मान में अन्त्येष्टि के दिन दिनांक 29.11.08 को राज्य सरकार के कार्यालयों तथा सभी शिक्षण संस्थानों (स्कूल एवं महाविद्यालय) बंद रहेंगे।

विश्वासभाजन,  
विजय कुमार वर्मा,  
सरकार के उप सचिव।

---

पत्रांक — बी०/मृ०-1009/08-1869

---

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
(सामान्य शाखा)

---

प्रेषक,

विजय कुमार वर्मा,  
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 28 नवम्बर, 2008

विषय:-पूर्व प्रधानमंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के निधन पर राजकीय शोक मनाये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-1867 दिनांक 27.11.08 के क्रम में सूचित करना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तु संवाद संख्या-3/4/2008-पब्लिक दिनांक 27.11.08 द्वारा संसूचित किया गया है कि दिवंगत नेता स्व० विश्वनाथ प्रताप सिंह के सम्मान में सम्पूर्ण भारत देश में दिनांक 27.11.2008 से 03.12.2008 तक, सात दिनों का राजकीय शोक मनाया जायेगा। इस अवधि (27.11.08 से 03.12.08 तक) में उन सभी भवनों, जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में कोई राजकीय समारोह/सरकारी मनोरंजन (Official Entertainment) कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।

विश्वासभाजन  
विजय कुमार वर्मा,  
सरकार के उप सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 54-571+50-डी०टी०पी०।